



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 1026 राँची, शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

3 दिसम्बर, 2019

संख्या-13/शक्ति प्र0-05/2019 का0- 9677-- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-92 दिनांक- 30.11.2019 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित, विधानसभा आम निर्वाचन, 2019 के लिये जोनल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 48, सेक्टर पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 297, उड़न दस्ता दल में प्रतिनियुक्त 15 तथा पीठासीन पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 2069 पदाधिकारियों/कर्मियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत उनकी प्रतिनियुक्ति की तिथि से उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रेम कुमार राय,
सरकार के अवर सचिव
